

सिमेज कॉलेज में हुआ जबर्दस्त प्लेसमेंट

‘एम.बी.ए. के साथ-साथ बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. के छात्रों ने भी पाया जॉब’

सिमेज कॉलेज के छात्रों को कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न कोर्पोरेट हाउसेज़ द्वारा जॉब प्रदान किये हैं | कॉलेज के प्लेसमेंट सेल द्वारा चलाये गए इस ‘मेगा कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव’ की जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक नीरज अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज में पिछले दिनों चलाये गए प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान ‘इंडसइंड बैंक, भारती एक्सा लाइफ़, एल्प्रो पैनल्स, राज डेयरी, सुरक्षा गोल्ड प्लास्टर्स तथा कई अन्य नियोक्ताओं ने भाग लिया |

उन्होंने बताया कि इस प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से एम्.बी.ए. की रुपाली आशु तथा बी.बी.ए. के राजीव रंजन को ‘इंडसइंड बैंक’ में जबकि एम.बी.ए. के राज गौरव को ‘एक्सिस बैंक’ में तथा एम्.बी.ए. की श्वेता सिन्हा को भारती एक्सा लाइफ़ से भी जॉब ऑफर प्राप्त हुए | जबकि मीडिया विभाग की बी.एम्.सी.ए. की छात्रा क्रिस्टी को ‘सिनर्जी इवेंट्स एन्ड एडवर्टाइजिंग’ में, बी.एम्.सी.ए. के ही एक अन्य छात्र समीर आनन्द को ‘न्यूज़ इंडिया’ में, जबकि एम.बी.ए. के छात्र गौरव नीति को ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ द्वारा जॉब ऑफर प्रदान किया गया | एम.बी.ए. के ही अन्य छात्र आदर्श कुमार तथा अजित कुमार मिश्रा को ‘वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर’ में, आनंद प्रकाश को ‘डोल्लिफन ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज’ में, बी.बी.ए. के दीपक राज तथा सौरभ सुमन को ‘हिडलबर्ग सीमेंट’ में, एम.बी.ए. के गौतम सिंह को ‘राज डेयरी’ में, एम.बी.ए. के मधुकर आनन्द, पंकज कुमार सिंह, राजीव रंजन निराला, राहुल कुमार रे को ‘एल्प्रो पैनल्स’ में तथा एम.बी.ए. के अभिमन्यु कुमार को फ़ोर्स मोटर्स द्वारा में जॉब प्राप्त हुआ |

वहीं दिल्ली स्थित ‘सुरक्षा गोल्ड प्लास्टर्स’ द्वारा कॉलेज के 9 छात्रों को जॉब ऑफर प्रदान किया गया | जिनमे से एम.बी.ए. विभाग के नटवर कुमार, अभिनव कुमार सिंह, रजत कुमार तथा बी.बी.ए. के सागर कुमार चौधरी, आनंद कुमार, संजीव कुमार, नौशाद अली, राजीव रंजन हैं | इस जॉब की खास बात यह है कि इस कम्पनी द्वारा छात्रों को उनके ‘होम-टाउन’ में ही जॉब प्रदान किया गया है एवं इनकी सैलरी 16,000 रुपये प्रति माह तथा इन्सेन्टिव अतिरिक्त होगा | वही बी.बी.ए. के ही रवि शंकर झा को ‘प्लेटिनम प्लास्टर’ द्वारा जॉब ऑफर प्रदान किया गया है |

इस प्लेसमेंट की जानकारी देते हुए कॉलेज की प्लेसमेंट हेड नेहा वर्मा में बताया कि इस प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से छात्रों को अधिकतम सैलरी तीन लाख चौबीस हजार रु/ सालाना का जॉब ऑफर प्रदान किया गया है, जबकि एवरेज सैलरी 1.90 लाख रुपये रही | कई छात्रों को एक से ज्यादा जॉब ऑफर भी प्राप्त हुए हैं| उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट ड्राइव आगे भी चालू रहेगा और जल्द ही कई और अन्य कम्पनियां भी कॉलेज कैम्पस प्लेसमेंट के लिए आएंगी | कॉलेज की सेंटर हेड मेधा अग्रवाल, डीन नीरज पोद्दार तथा अन्य शिक्षकों ने छात्रों के चयन पर प्रसन्नता जाहिर की तथा उन्हें उनकी इस सफलता पर बधाई दी |